


Pledged to - EERNW Works Division, Arrah



29/02/2022

बचत पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

ASHOK KUMAR

SO PARSHURAM SINGH
SAMVEDAK COLONY MISSION ROAD GIRJA CHURCH
807301
INDIA

संक्षेप खाता क्र./ FD A/c No	12040300028854
साक्षि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0902222350
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	063035519
स्वयंसेवा खाता / Linked Operative a/c	12040400000170
शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHIHAR

योजना Scheme	FIXED DEPOSIT - R/RQ(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	ASLPK5196L
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लिखन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अल्पवयस्क है) / Guardian Name (if a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिमत्ता तिथि / Maturity Date	परिमत्ता मूल्य / Maturity Value*
1052000	09-02-2022	5.25	60 Months 0 Days	09-02-2027	1365452

*परिमत्ता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आचर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण कर्तव्य:	2. Automatic Renewal Clause:
क. यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष के अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ख. यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष के अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिविल खातों के लिए है।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक वर्ष 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सीमा पर काटती की जाएगी।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण कर्तव्य:	6. Premature Withdrawal Clause:
क. कोई भी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी, जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कई रेट से 1% कम।	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ख. कोई भी अधिक की गई जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी, जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कई रेट से 1.5% कम। कोई भी अधिक की गई जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण की लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



1	8	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	31
19	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25			
							5	12					

WD. AR

Plodge - E E RWD. Works Division, Arrah

M

Bank of Baroda
BANK OF BARODA



21/09/2021

Depositor / Deposit Confirmation Advice

MR

ASHOK KUMAR

JOGRA ARRAH
SO PARSHURAM SINGH
802161
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No 12040300028332
सावधि सूचना नं./ FD Advice No FDR2109213513
कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No 063035519
हयवहार खाता / Linked Operative a/c 120404000000170
शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

योजना Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No. ASLPK5196L

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N


जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2900000	21-09-2021	5.25	60 Months 0 Days	21-09-2026	376408

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)


नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज :
i) यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा,
ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा,
- फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं,
- निकासी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सौत पर कर कटौती की जाएगी,
- फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे,
- परिपक्वता आहरण क्लॉज :
i) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांस्टेंट रेट से 1% कम
ii) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांस्टेंट रेट से 1% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है
- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause :
i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank
ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Plugged to EERWD WORKS Division Arunachal Pradesh



10/01/2023

ASHOK KUMAR

O PARSHURAM SINGH
AMVI DAK COLONY GIRIJA CHURCH
W 361
MIRZA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12040300030968
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1001235641
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	J9B074606
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	120404000000170
शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHBIHAR

योजनी / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ASLPK5196L	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
संयत चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
₹ 589000	10-01-2023	6.25	60 Months 0 Days	10-01-2028	589049

*परिपक्वता मूल्य मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर वार्षिक है।

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज

3. यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष के अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा,

4. यदि अवधि 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा,

5. फॉर्म 15G और 15H सिर्फ निवासी खातों के लिए है।

6. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निधारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया फॉर्म 15G/15H (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी,

7. फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे,

8. प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज

9. प्रीमच्यूर विलड्रॉल की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी काट कर जमा राशि को तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांड रेट से देय होगा।

10. प्रीमच्यूर विलड्रॉल की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी काट कर जमा राशि को तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांड रेट से देय होगा। प्रीमच्यूर विलड्रॉल की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण की तारीख से 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. Automatic Renewal Clause

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. Premature Withdrawal Clause

i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank

ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note: this is a system generated advice and does not require any signature

